



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1977]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2009/अग्रहायण 6, 1931

No. 1977]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2009/AGRAHAYANA 6, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2009

का.आ. 3040(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1267(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2004 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45बी के 0.000 कि.मी. से 125.000 कि.मी. के भू-खंड (त्रिची-मेलुर मदुरई से कन्याकुमारी सेक्शन) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंप दिया था।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी के तोवारानकुरुची-मदुरई सेक्शन के 60.950 कि.मी. से 124.840 कि.मी. (कुल लम्बाई 63.890 किलोमीटर) तक के सेक्शन के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3), (4), और (5) में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को उक्त फीस का संग्रहण अपने पदधारियों या ठेकेदार के माध्यम से करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	यान का प्रकार	एकतरफा यात्रा के लिए यान की फीस दर (रुपये में)	उसी दिन वापसी यात्रा के लिए यानों की फीस दर (रुपये में)	एक मास में 50 यात्राओं के लिए विधिमान्य मासिक पास हेतु यानों की फीस दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कार, जीप, वैन और हल्के मोटर यान	45	70	1525
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के मालवाहक यान और मिनी बस	75	110	2465
3.	बस और ट्रक	155	230	5160
4.	भारी निर्माण मशीनें या अर्ध मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान (तीन से छह धुरी)	245	365	8095
5.	अधिक बड़े यान (सात अथवा अधिक धुरी)	295	445	9855

टिप्पण :—वर्ष 2009-10 के लिए स्थानीय गैर-वाणिज्यिक यातायात के लिए मासिक पास की दर 165 रुपये (एक सौ पैंसठ रुपये केवल) होगी।

[फा. सं. भार.रा.प्रा./13013/491/09-10/सीओ/जीसी त्रिचि (तोवारानकुरुची-मदुरई)]

प्रभाकर, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2009

**S.O. 3040(E).**—Whereas, the Central Government *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1267(E), dated the 16th November, 2004 issued under Section 11 of the National Highways, Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), entrusted the stretch from km. 0.000 to km 125.000 (Trichy- Melur-Madurai Section) of National Highway No. 45B in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby levies the fee at the rates specified in columns (3), (4) and (5) of the following Table, on the type of vehicles specified in column (2) thereof, for the use of the Tovarankurichi-Madurai Section from km 60.950 to km 124.840 (total length being 63.890 km), of National Highway No. 45B in the State of Tamil Nadu and Authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :—

TABLE

Sl. No.	Type of Vehicles	Rate of fee for vehicle for one way trip (in rupees)	Rate of fee for vehicle for return trip in a day (in rupees)	Rate of fee for vehicles for monthly pass valid for 50 journeys in a month (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Car, Jeep, Van and Light Motor Vehicle	45	70	1525
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle and Mini Bus	75	110	2465
3.	Bus and Truck	155	230	5160
4.	Heavy Construction Machinery, or Earth Moving Equipment or Multi Axle Vehicle ( three to six axles)	245	365	8095
5.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	295	445	9855

**Note :—**The rate of monthly pass for local non-commercial traffic shall be Rs. 165.00 (One hundred sixty five rupees only) for the year 2009-10.

[ F. No. NHAI/13013/491/09-10/CO/GC-Trichy (Tovarankurichi-Madurai)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.